

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07062025-263663
SG-DL-E-07062025-263663असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]	दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 78
No. 1]	DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947	[N. C. T. D. No. 78

भाग III
PART IIIराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अप्रैल, 2025 .

संख्या ए-12011/11/2023-एच(स्था.)-II/डी-409.— नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 43 की उपधारा (1) के क्लॉज़(सी) और (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 387 की उपधारा (2) के अनुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एतद द्वारा चिकित्सा सेवा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में डेंटल मैकेनिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-- (1) इन नियमों को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, चिकित्सा सेवा विभाग, डेंटल मैकेनिक, (श्रेणी-'सी' पद) भर्ती विनियम, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .-- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जैसा कि इन विनियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम(2) से कॉलम(4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताआदि--** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताऔर उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम(5) से कॉलम(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अयोग्यता-** कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है जिसका जीवनसाथी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा

बशर्ते कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को यदि संतुष्टिहो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू वैयक्तिक कानूनके अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.--** जहां नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारण को लिखित में दर्ज करके तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध में शिथिलता दे सकेगी।

6. **व्यावृत्ति ,---** इन विनियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम.	पदों की संख्या .	वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर.	चयनितपद या गैर चयनितपद।
1	2	3	4	5
डेंटल मैकेनिक	02* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन।	सामान्य केंद्रीय सेवा, श्रेणी 'सी', अराजपत्रित , (गैर-अनुसचिवीय)	स्तर-4 (25500 - 81100).	लागू नहीं.

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
6	7	8	9
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष तक छूट दी जा सकती है)। नोट: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान स्ट्रीम विषयों के साथ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डेंटल मैकेनिक या तकनीशियन में दो वर्ष का डिप्लोमा; तथा (iii) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। नोट :- परिवीक्षा पूरी करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य

चम्बा जिले के पांगी डिवीजन , संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, संघ शासित प्रदेश लद्दाख और संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी।	या राज्य दंत चिकित्सा परिषद के साथ दंत मैकेनिक या तकनीशियन के रूप में पंजीकृत। वांछित: किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान में डेंटल मैकेनिक या तकनीशियन के रूप में एक वर्ष का अनुभव।		परिचयात्मक प्रशिक्षण होगा।
---	---	--	----------------------------

भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती हो या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा/ विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्तियों का समावेश और प्रतिशत।	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेश किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। नोट: किसी पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दूर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी:- (क) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25500-81100) में सदृश पद या समकक्ष पद धारण करना; और (ख) कॉलम(7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखना। नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	श्रेणी: 'सी'. विभागीय पुष्टि समिति: (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- 1. निदेशक (कार्मिक), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद - अध्यक्ष; 2. निदेशक (चिकित्सा सेवाएं), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद - सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (स्वास्थ्य), 4. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् - सदस्य।	लागू नहीं.

शुभंकर घोष , निदेशक (कार्मिक-II), एन.डी.एम.सी.।

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL

NOTIFICATION

Delhi, the 1st April, 2025

F.No.A-12011/11/2023-H(Estt.)-II/D-409.—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (e) of sub-section (1) of section 43 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994) and with the approval of the Central Government in terms of sub-section (2) of section 387 of the said Act, the New Delhi Municipal Council hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Dental Mechanic in Medical Services Department, New Delhi Municipal Council, namely:-

1. Short title and commencement.--(1) These rules may be called the New Delhi Municipal Council, Medical Services Department, Dental Mechanic, (Category -'C' Post) Recruitment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, classification and level in pay matrix.-- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.-- No person,--

Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the New Delhi Municipal Council may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax. -- Where the New Delhi Municipal Council is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing and with the approval of the Central Government, relax any of the provision of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Saving.--- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Section, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.
1	2	3	4	5
Dental Mechanic.	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Category 'C', Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Level-4 (25500 -81100).	Not Applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
<p>Between 18 and 27 years.(Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya , Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Union Territory of Ladakh and Union territory of Lakshadweep.</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) 12th class pass with science stream subjects from a recognized Board;</p> <p>(ii) two years Diploma in Dental Mechanic or Technician from an Institute recognized by the Dental Council of India; and</p> <p>(iii) registered with the Dental Council of India or State Dental Council as a Dental Mechanic or Technician..</p> <p>Desirable:</p> <p>One year experience as Dental Mechanic or Technician in a recognized hospital/Institute.</p>	Not applicable.	<p>Two years for direct recruits.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration as prescribed by the Chairman, New Delhi Municipal Council for completion of probation.</p>

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
10	11	12	13
<p>By Direct Recruitment failing which by deputation.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or the State Government or the Union Territories.</p>	<p>Deputation: Officers of the Central Government or the State Government or the Union Territories:-</p> <p>(a) holding analogous post or equivalent post in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix on a regular basis in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department</p>	<p>Category: 'C'.</p> <p>Departmental Confirmation Committee:</p> <p>(for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>1. Director (Personnel), New Delhi Municipal Council -- Chairman;</p> <p>2. Director(Medical Services), New Delhi Municipal Council -- Member;</p> <p>3. Joint Director or Deputy Director (Health), New Delhi Municipal Council --</p>	Not applicable.

	of the Central Government or the State Government or the Union Territories shall ordinarily not to exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Member.	
--	---	---------	--

SHUBANKAR GHOSH, Director (Personnel-II), N.D.M.C.